



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 932 राँची, बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

18 नवम्बर, 2019

संख्या-5/आरोप-1-3/2017-26866 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अनमोल कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-675/03, गृह जिला-भागलपुर), तत्कालीन उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, संथाल परगना, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका के विरुद्ध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, दुमका में बाहरी व्यक्ति मो0 हसनू से अवैतनिक एवं अवैध रूप से कार्य कराने, श्रावणी मेला हेतु अस्थायी परमिट की स्वीकृति पर जिन वाहन स्वामियों द्वारा परमिट उठाव हेतु शुल्क जमा नहीं किया गया, उन्हें एक बार भी कार्यालय द्वारा इस संबंध में नोटिस निर्गत नहीं करने, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक के पूर्व समय सारणी को वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं करने और न ही सूचना पट्ट पर लगाने एवं कार्यालय में अनधिकृत व्यक्तियों एवं बिचैलियों का अबाध प्रवेश कराने संबंधी जैसा कि विभाग द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री सिंह द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANMOL KUMAR SINGH BHR/BAS/3024	श्री अनमोल कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-675/03, गृह जिला-भागलपुर), तत्कालीन उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, संचाल परगना, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
